

**उत्तराखण्ड शासन**  
**पशुपालन अनुभाग-1**  
**संख्या 694 /XV-1/18/2(6)/2010**  
**देहरादून : दिनांक 12 अक्टूबर, 2018**  
**कार्यालय-ज्ञाप**

कार्यालय ज्ञाप संख्या-484/XV-1/18/2(6)/2010 दिनांक 29 जून, 2018 के द्वारा संयुक्त निदेशक वेतनमान ₹15600-39100 ग्रेड पे० ₹ 7600(पुनरीक्षित वेतनमान ₹78800-209200 लेवल-12) के द्वारा संयुक्त निदेशक, पशुपालन के 02 पदों पर पदोन्नत किये गये निम्न पशुचिकित्साधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित संस्था पर पदस्थापित किये जाने की — श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान
1	2	3	4
1	डा० अनुज कुमार अग्रवाल	पशुचिकित्सालय बेतालघाट, जनपद नैनीताल,	परियोजना निदेशक, विदेशी प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण, एवं संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक कार्यालय पशुपालन विभाग कुमायूँ मण्डल, नैनीताल का अतिरिक्त प्रभार।
2	डा० आशुतोष जोशी	उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड, देहरादून	संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड, देहरादून

2. सम्बन्धित अधिकारी आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पदस्थापित स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. उपरोक्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्तांकित अधिकारियों द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान नहीं किया जाता है कि तो उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

आर० मीनाक्षी सुन्दरम  
सचिव

**संख्या 694 (1)/XV-1/2018 तददिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
5. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
8. सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ।

आज्ञा से,  
  
**(वी०एस० पुन्डीर)**  
 उप सचिव